



## भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} =$$

$$\frac{3}{2} + 1\frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{3} =$$

$$\frac{2}{5} + \frac{7}{5} =$$

$$\frac{7}{6} + \frac{3}{6} =$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} =$$

$$\frac{4}{9} + \frac{2}{9} =$$

$$2\frac{1}{2} + \frac{5}{2} =$$

$$\frac{1}{8} + \frac{4}{8} =$$

$$\frac{6}{9} + \frac{5}{9} =$$



## भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$$

$$\frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2$$

$$\frac{2}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$$

$$\frac{7}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{2}{3}$$

$$2\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 5$$

$$\frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$$

$$\frac{6}{9} + \frac{5}{9} = \frac{11}{9} = 1\frac{2}{9}$$